

## 1. भारत : एक दृष्टि में

1. भारत का वर्तमान क्षेत्रफल ?
2. भारत के कुल राज्यों की संख्या ?
3. भारत के कुल केन्द्रशासित प्रदेशों की संख्या ?
4. भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य ?
5. क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य ?
6. भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य ?
7. भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य ?
8. भारत का सबसे लम्बा नदी पुल ?
9. भारत का राष्ट्रीय पक्षी ?
10. भारत का राष्ट्रीय पशु ?
11. भारत का राष्ट्रीय वृक्ष ?
12. भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर ?
13. भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य ?

32.8 लाख वर्ग किलोमीटर  
29  
07  
गोवा  
राजस्थान  
केरल  
बिहार  
भूपेन हजारिका सेतु, असम  
मोर  
राजसी बाघ  
बरगद  
शक संवत्  
सत्यमेव जयते

## 2. देवी देवता

1. सर्वप्रथम किस देवता की पूजा करने का प्रावधान है ?
2. त्रिदेव अथवा त्रिमूर्ति किन्हें कहा जाता है ?
3. सृष्टि के रचनाकार देवता का नाम ?
4. सृष्टि का पालनकर्ता किन्हें कहा जाता है ?
5. सृष्टि का संहारक रूप में किस देवता को जाना जाता है ?
6. त्रिदेव में किसकी पूजा सबसे कम होती है ?
7. ब्रह्मा जी का मंदिर कहां स्थित है ?
8. भगवान् विष्णु के मुख्यतः कितने अवतार माने गए हैं ?
9. भक्त प्रह्लाद को हिरन्यकश्यप से बचाने के ली भगवान् विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था ?
10. विष्णु के किस अवतार का शस्त्र फरसा था ?
11. नीलकंठ के नाम से किस देवता का स्मरण किया जाता है ?
12. श्री कृष्ण की जन्मदात्री माता का नाम बताओ ?
13. देवताओं के राजा का नाम बताओ ?
14. देवताओं के कौषाध्यक्ष कौन हैं ?
15. धन की देवी कौन हैं ?
16. विद्या की देवी किसे कहते हैं ?
17. देवताओं के गुरु का नाम बताओ ?
18. किस देवता के चार मुख हैं ?
19. आशुतोष किस देवता को कहा जाता है ?
20. शैलजा (गिरिजा) के नाम से कौन सी देवी जानी जाती है ?
21. किस देवता को रुद्र भी कहा जाता है ?
22. विनायक किस देवता को कहते हैं ?
23. देवता इंद्र का वाहन क्या है ?
24. शिव जी का वाहन कौन है ?
25. श्री गणेश जी का वाहन क्या है ?
26. किस का वाहन शेर है ?
27. यमराज किस की सवारी करते हैं ?
28. एक दन्त किस देवता को कहते हैं ?
29. वज्र किस देवता का शस्त्र है ?
30. असुरों के गुरु का क्या नाम है ?
31. महिषासुर राक्षस का वध किसने किया ?
32. देवताओं के वास्तुशिल्पी कलाकार का नाम बताओ ?
33. 33 करोड़ देवी देवता किस मंदिर में हैं ?
34. भगवान् विष्णु का शयन स्थल कहाँ माना जाता है ?
35. भगवान् शिव का निवास कहाँ माना जाता है ?
36. हिन्दू मान्यता के अनुसार वर्षा किस देवता की कृपा से होती है ?
37. उस देवी का नाम बताओ जिसके अन्य नाम हैं – वीणा वादिनी, शारदा ?
38. उस देवता का नाम बताओ जिसे वक्रतुंड, गजानन, विघ्नविनाशक, गणपति, लम्बोदर भी कहते हैं ?
39. सूर्यदेव के रथ के सारथी का नाम बताओ ?
40. भगवान् शिव द्वारा प्रलय लाने वाले नृत्य का नाम बताओ ?

गणेश  
सर्वश्री ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश  
ब्रह्मा  
विष्णु  
शिव  
ब्रह्मा  
पुष्कर (राजस्थान)  
दस (कुल चौबीस)  
नरसिंह  
परशुराम  
शिव  
माता देवकी  
देवता इंद्र  
देवता कुबेर  
माता लक्ष्मी  
मां सरस्वती  
बृहस्पति  
ब्रह्मा  
शिव  
माता पार्वती  
शिव  
गणेश  
ऐरावत हाथी  
नंदी बैल  
मूषक  
दुर्गा  
भैसा  
श्री गणेश जी  
इन्द्र  
शुक्राचार्य  
दुर्गा  
विश्वकर्मा  
रघुनाथ मंदिर (जम्मू)  
क्षीर सागर  
कैलाश पर्वत  
देवता इंद्र  
मां सरस्वती  
गणेश  
अरुण  
तांडव

### 3. धर्म

1. हिन्दुओं के सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रन्थ कौन से हैं ?
2. वेदों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम ?
3. वेदों में सबसे बड़ा वेद कौन सा है ?
4. किस वेद में चिकित्सा सम्बन्धी वर्णन है ?
5. किस वेद में संगीत का वर्णन है ?
6. श्रीमद्भागवत के लेखक का नाम ?
7. किस राजा ने अपने वचन की रक्षा के लिए डोम का कार्य करना स्वीकार किया ?
8. पिता की आज्ञा मान कर स्वयं को यम को सौंपने वाले बालक का नाम बताओ ?
9. कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काटकर बाज को देने वाले राजा कौन थे ?
10. हिन्दुओं के चार प्रमुख मठ कहाँ पर स्थापित हैं ?
11. चारों मठों की स्थापना किसने की ?
12. ज्योतिर्लिंगों की संख्या तथा नाम बताओ ?
  - i. सोमनाथ (गुजरात)
  - ii. मल्लिकार्जुन (आंध्र प्रदेश)
  - iii. महाकालेश्वर (उज्जैन, मध्य प्रदेश)
  - iv. ओम्कारेश्वर / ममलेश्वर (म० प्र०)
  - v. वैद्यनाथ (झारखण्ड)
  - vi. भीम शंकर (महाराष्ट्र)
  - vii. रामेश्वर तमिलनाडु)
  - viii. नागेश्वर / नागनाथ (गुजरात)
  - ix. विश्वनाथ (वाराणसी, उ० प्र०)
  - x. त्रयम्बकेश्वर (महाराष्ट्र)
  - xi. केदारनाथ (गढ़वाल, उत्तराखण्ड)
  - xii. घुमेश्वर (महाराष्ट्र)
13. महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित कौन सा धर्म / सम्प्रदाय प्रचलित हुआ ?
14. महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ ?
15. महात्मा बुद्ध ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया ?
16. त्रिपिटक किस धर्म से सम्बंधित ग्रन्थ है ?
17. महात्मा बुद्ध ने किस व्यक्ति को डाकू से संत बनाया ?
18. जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे ?  
तीर्थंकर)
19. जैन धर्म में कितने तीर्थंकर माने गये हैं ?
20. जैन धर्म में चौबीसवे तीर्थंकर का नाम ?
21. जैन धर्म की दो मुख्य धाराएँ कौन सी हैं ?
22. गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था ?
23. सिख गुरुओं की वाणी किस ग्रन्थ में मिलती है ?
24. गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है ?
25. सिखों के प्रथम गुरु कौन थे ?
26. सिखों के गुरुओं की संख्या ?
27. शीशगंज गुरुद्वारा किस महापुरुष के बलिदान की याद दिलाता है ?
28. किस गुरु ने धर्म हित में अपने चार पुत्रों का बलिदान दिया ?
29. खालसा पंथ की स्थापना किसने की ?
30. खालसा शब्द का क्या अर्थ है ?
31. आनंदकारज के नाम से कौन से धर्म में विवाह होता है ?
32. जब गुरु गोविंद सिंह ने गुरु पद पाया, उनकी आयु क्या थी ?
33. गुरु ग्रन्थ साहेब को सिख गुरु की पदवी किसने दी ?
34. चैतन्य महाप्रभु किस प्रदेश के संत थे ?
35. संत तुकाराम और एकनाथ किस प्रदेश से सम्बंधित थे ?
36. गंगा नदी का उदगम स्थान कौन सा है ?
37. गीता में किस स्थान को धरमक्षेत्र कहा गया है ?
38. गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर कहाँ स्थित है ?
39. उस सर्प का नाम बताओ जिसे समुद्र मंथन के लिए प्रयोग किया गया था ?
40. संत तुकाराम किस देव के उपासक थे ?
41. मुसलमानों के कैलेंडर वर्ष का क्या नाम है ?
42. गंगा सागर में किसका मंदिर है ?
43. हिन्दू मान्यता के अनुसार किस त्यौहार पर पीले वस्त्र पहनने की परम्परा है ?
44. कुम्भ मेला कहाँ- कहाँ लगता है ?
45. 100 गलतियाँ माफ करने के बाद श्री कृष्ण ने किसका वध किया था ?
46. स्वामी विवेकानंद के साथ धर्म प्रचार करने वाली विदेशी शिष्या का नाम ?

वेद  
चार (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद)  
ऋग्वेद  
अथर्ववेद  
सामवेद  
श्री वेद व्यास  
राजा हरिश्चंद्र  
नचिकेता  
राजा शिवी  
बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, श्रंगेरी  
तथा द्वारका  
आदि गुरु शंकराचार्य ने

बौद्ध धर्म  
बौध गया  
कुशीनगर  
बौद्ध  
अंगुलिमाल  
ऋषभवेद (प्रथम

24  
महावीर स्वामी  
दिगम्बर और श्वेताम्बर  
ननकाना साहेब  
गुरु ग्रन्थ साहेब  
पटना साहेब  
गुरु नानक देव  
11 (गुरु ग्रन्थ साहेब सहित)  
गुरु तेगबहादुर (नवे गुरु)  
गुरु गोविंद सिंह  
गुरु गोविंद सिंह  
शुद्ध  
सिख  
9 वर्ष  
गुरु गोविंद सिंह  
बंगाल  
महाराष्ट्र  
गौमुख  
कुरुक्षेत्र  
गुरुगाँव (हरियाणा)  
वासुकी  
भगवान विष्णु  
हिजरी  
कपिल मुनि  
बसंत पंचमी  
हरिद्वार, नासिक, प्रयाग, उज्जैन  
शिषुपाल  
सिस्टर निवेदिता

47. 'ॐ जय जगदीश हरे' आरती के रचयिता कौन थे ?

श्री शिवानन्द स्वामी

#### 4. रामायण से

1. रामायण के रचनाकार का नाम बताओ ?
2. श्री राम चरितमानस में कितने काण्ड हैं ?
3. श्री राम चरितमानस के अध्यायों को क्या कहते हैं ?
4. राजा दशरथ के पिता का नाम बताओ ?
5. गंगा किसकी तपस्या से धरती पर आई ?
6. राजा दशरथ के कुलगुरु का नाम ?
7. राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ किया ?
8. राजा दशरथ को किसने पुत्र वियोग का श्राप दिया था ?
9. मुनि विश्वामित्र के साथ वन जाने पर श्री राम ने सर्वप्रथम किसका वध किया ?
10. महर्षि गौतम की पत्नी का नाम बताओ ?
11. सीता का शाब्दिक अर्थ क्या है ?
12. वैदेही (जानकी) किसे कहा जाता है ?
13. सीता के अतिरिक्त जनक की दूसरी पुत्री का नाम ?
14. राम के वन गमन के बाद अयोध्या के राज सिंहासन पर कौन आसीन हुआ ?
15. अनुसुइया किस ऋषि की पत्नी थी ?
16. सुब्रीव व श्री राम की प्रथम भेंट कहाँ हुई ?
17. रावण ने सीता को हरण कर लंका में किस स्थान पर रखा ?
18. किस ने अशोक वाटिका में हनुमान जी को बंदी बना कर रावण के सम्मुख पेश किया ?
19. इन्द्रजीत का वध किसके हाथों हुआ ?
20. कुम्भकर्ण को किसने मारा ?
21. राम रावण युद्ध के समय राम को पैदल युद्ध करते देख किसने उसे अपना रथ भेजा ?
22. लव कुश का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ ?
23. राजा दशरथ के चार पुत्रों में से कौन दो सगे (सहोदर) भाई थे ?
24. किसके कहने पर कैकयी ने राम को वनवास दिलाया था ?
25. रावण के माता पिता का नाम ?

महर्षि वाल्मीकि  
सात  
काण्ड  
अज  
भागीरथ  
वशिष्ठ  
पुत्रेष्टि यज्ञ  
श्रवण कुमार के माता पिता ने  
ताडका राक्षसी  
अहिल्या  
हल जोतने से खेत में बनी रेखा  
सीता  
उर्मिला  
श्री राम की चरण पादुका  
अग्नि  
ऋष्यमूक पर्वत  
अशोक वाटिका  
मेघनाथ (इन्द्रजीत)  
लक्ष्मण  
श्री राम ने  
इन्द्र ने  
वाल्मीकि  
लक्ष्मण व शत्रुघ्न  
मंथरा दासी  
कैकयी - विश्रवा

#### 5. महाभारत से

1. महाभारत के रचयिता का नाम ?
2. महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया ?
3. भगवद्गीता किस ग्रन्थ का एक भाग है ?
4. भगवद्गीता में कितने अध्याय हैं ?
5. महाभारत के अध्यायों को क्या कहते हैं ?
6. भगवद् गीता में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है ?
7. भगवद् गीता में कौन सा अध्याय सबसे बड़ा है ?
8. महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है ?
9. भीष्म पितामह का असली नाम क्या था ?
10. कुंती किस की पत्नी थी ?
11. धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्या नाम दिया गया ?
12. पांडु के पुत्रों को क्या नाम दिया गया ?
13. महाभारत के अनुसार किस ने विवाह के समय ही अपनी आंखों पर पट्टी बाँध ली थी ?
14. महाभारत में धर्म पुत्र किसे कहा गया है ?
15. कौरवों व पांडवों के शस्त्र गुरु का नाम बताओ ?
16. गुरु की मूर्ति बना कर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने वाले भील बालक का नाम बताओ ?
17. महाराज धृतराष्ट्र ने किसको अपना मंत्री बनाया ?
18. कर्ण की जन्मदात्री माता का नाम बताओ ?
19. अभिमन्यु की माता का नाम बताओ ?
20. जुए में हारकर पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला ?
21. श्रीकृष्ण के शंख का क्या नाम था ?
22. महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ ?
23. युद्ध में कौरवों का प्रथम सेनापति कौन था ?
24. युद्ध में पांडवों का प्रथम सेनापति कौन था ?
25. चक्रव्यूह की रचना किसने की ?
26. भीष्म पितामह कितने दिन तक शरशैर्या पर पड़े रहे ?
27. द्रोणाचार्य किसके हाथों मारे गए ?
28. दुःशासन का वध किसने किया ?
29. कर्ण का वध किसके हाथों हुआ ?

वेद व्यास  
गणेश जी ने  
महाभारत  
18 (अठारह)  
पर्व  
700 (सात सौ)  
18वाँ  
एक लाख  
देवव्रत  
पांडु  
कौरव  
पांडव  
गांधारी  
युधिष्ठिर  
द्रोणाचार्य  
एकलव्य  
विदुर  
कुंती  
सुभद्रा  
12 वर्ष वनवास तथा 1 वर्ष अज्ञातवास  
पांचजन्य  
कुरुक्षेत्र  
भीष्म पितामह  
धृष्टद्युम्न  
गुरु द्रोणाचार्य ने  
58 दिन  
धृष्टद्युम्न  
भीम ने  
अर्जुन के द्वारा

30. युद्ध में विजयी होने पर पांडवों ने कौन सा यज्ञ किया ?

अश्वमेध यज्ञ

## 6. धर्म स्थल

1. वह मंदिर बताइये जहां वर्ष में एक बार बर्फ का शिव लिंग बनता है ?
2. वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस प्रदेश में है ?
3. स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर है ?
4. सारनाथ किस प्रदेश में है ?
5. ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर किस स्थान पर है ?
6. जगन्नाथ पुरी मंदिर में किन देवी - देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं ?
7. भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है ?
8. सोमनाथ का मंदिर किस प्रदेश में है ?
9. पारसियों का अग्नि मंदिर उपवाडा किस प्रदेश में है ?
10. तिरुपति मंदिर में किस देवता की मूर्ति है ?
11. विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है ?
12. कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है ?
13. रामेश्वर मंदिर में किस देवता की मूर्ति प्रतिष्ठित है ?
14. भारत में वह कौन - सा स्थल है जहां तीन समुद्र मिलते हैं तथा जहां सूर्योदय तथा सूर्यास्त एक ही स्थान से देखे जा सकते हैं ?
15. पूर्वांचल के उस प्रदेश का नाम बताओ जिसमें प्रवेश करते ही राधा कृष्ण की मूर्तियों वाले धर्म स्थलों की उपस्थिति नजर आने लगती है ?

अमरनाथ (जम्मू - कश्मीर)  
जम्मू - कश्मीर  
अमृतसर (पंजाब)  
उत्तर प्रदेश  
पुष्कर (राजस्थान)  
जगन्नाथ (श्री कृष्ण), बलभद्र तथा सुभद्रा  
जमा मस्जिद (दिल्ली)  
गुजरात  
गुजरात  
बालाजी, वेंकटेश्वर (विष्णु)  
वाराणसी / काशी (उत्तर प्रदेश)  
गुवाहाटी (असम)  
रामनाथन (शिव)  
कन्याकुमारी

मणिपुर

## 7. महान शिष्यों के महान गुरु

1. देवताओं के गुरु ?
2. असुरों के गुरु ?
3. राम के गुरु ?
4. श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा के गुरु ?
5. कौरवों एवं पांडवों के गुरु ?
6. चन्द्रगुप्त के गुरु ?
7. मंडन मिश्र के गुरु ?
8. आदि शंकराचार्य के गुरु ?
9. छत्रपति शिवाजी के गुरु ?
10. सिक्खों के प्रथम गुरु ?
11. विवेकानंद के गुरु ?
12. दयानंद सरस्वती के गुरु ?
13. एकनाथ महाराज के गुरु ?
14. तुलसीदास के गुरु ?
15. सूरदास के गुरु ?
16. कार्तिकेय के गुरु ?
17. स्वामी गोविंद पाद के गुरु ?
18. तानसेन के गुरु ?
19. कबीरदास के गुरु ?
20. भीष्म एवं कर्ण के गुरु ?
21. चैतन्य महाप्रभु के गुरु ?
22. बन्दा बैरागी के गुरु ?
23. बाला - मरदाना के गुरु ?
24. रामानुजाचार्य के गुरु ?
25. माधवाचार्य के गुरु ?
26. निम्बार्काचार्य के गुरु ?
27. वल्लभाचार्य के गुरु ?
28. रामकृष्ण परमहंस के गुरु ?

बृहस्पती  
शुक्राचार्य  
ऋषि वशिष्ठ  
संदीपनी मुनि  
द्रोणाचार्य  
वाणक्य  
कुमारिल भट्ट  
स्वामी गोविंद भगवत पाद  
समर्थ रामदास  
गुरु नानक देव जी  
रामकृष्ण परमहंस  
स्वामी विरजानंद  
जनार्दन महाराज  
नरहरी दास  
बल्लभाचार्य  
समुद्र ऋषि  
भास्कर मुनि  
स्वामी हरिदास  
रामानंद  
परशुराम  
केशव भारती  
जानकी दास  
गुरु नानक  
नाम्बि  
अच्युतपक्षाचार्य  
नारद  
माधवेंद्रपुरी  
परमहंस तोतापुरी

## 8. स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष

1. भारत का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ ?
2. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति के समय आयु कितनी थी ?
3. 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व प्रचार हेतु किन वस्तुओं का प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया ?
4. ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कूका आन्दोलन किस राज्य में हुआ था ?
5. तमिलनाडु के वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पत्रकार, जो अपनी देशभक्ति युक्त कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं ?
6. कौन - से सामाजिक - धार्मिक आन्दोलन ने नारा दिया, "भारत भारतीयों के लिए" ?

10 मई, 1857 मेरठ  
23 वर्ष  
रोटी और कमल  
पंजाब  
सुब्रमण्यम भारती  
आर्य समाज

7. सर्वेन्ट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे ? गोपाल कृष्ण गोखले
8. चाफेकर बंधुओं ने क्रूर अंग्रेज कमिश्नर रेड की हत्या किस नगर में की थी ? पुणे
9. किन क्रांतिकारियों के बलिदान से प्रेरणा प्राप्त करके, किशोर सावरकर ने आजन्म देश – सेवा का संकल्प लिया था ? चाफेकर बंधु
10. 'वन्दे मातरम्' और 'कर्मयोगी' नामक क्रांतिकारी अखबारों का प्रकाशन किसने किया था ? महर्षि अरविन्द घोष
11. लाला लाजपतराय की मृत्यु पर किसने कहा था की, 'भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया' ? महात्मा गाँधी
12. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ? लाला लाजपतराय
13. मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किन क्रांतिकारियों ने किया था ? खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी
14. काकोरी काण्ड के साथ किस क्रांतिकारी का नाम स्मरण आता है ? पं० रामप्रसाद बिस्मिल
15. क्रांतिकारी संगठन 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' का संगठन किसने किया था ? चंद्रशेखर आज़ाद
16. चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए स्वयं को गोली मारकर आत्मबलिदान किस स्थान पर किया था ? अल्फ्रेड पार्क (आजाद पार्क) इलाहाबाद
17. लाला लाजपतराय पर लाठी चलाने का आदेश देने वाले अंग्रेज अधिकारी सांडर्स को मारकर बदला लेने वाले क्रांतिकारी कौन थे ? भगत सिंह
18. भारतीयों का अपमान करने वाले अंग्रेज अधिकारी कर्जन वायली को उसी के देश में जाकर गोली मारने वाले क्रांतिकारी कौन थे ? मदन लाल ढींगरा
19. 63 दिन तक जेल में भूख हड़ताल करके, किस क्रांतिकारी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था ? जतिंद्र नाथ दास
20. केन्द्रीय असेम्बली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह के साथी कौन थे ? बटुकेश्वर दत्त
21. भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को कब फांसी पर लटका कर शहीद किया गया ? 23 मार्च, 1931
22. 'एक मुसलमान को भी फांसी चढ़ जाने दो' कहने वाले क्रांतिकारी कौन थे ? अशफाक उल्ला खां
23. दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आकर गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था ? चम्पारण (बिहार)
24. स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान किस कानून के विरोध में कहा गया की 'न वकील, न अपील, न दलील' ? रोलेट एक्ट
25. 1928 में सरदार बल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में कौन सा आन्दोलन प्रारंभ हुआ था ? बारदोली आन्दोलन
26. डांडी मार्च किस आन्दोलन का हिस्सा था ? सविनय अवज्ञा आन्दोलन
27. 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन कहा से प्रारंभ हुआ था ? बम्बई
28. 1943 में सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज का नेतृत्व किसने संभाला ? सुभाष चन्द्र बोस

## 9. भारत में प्रथम

1. भारतीय गवर्नर जनरल ? सी० राजगोपालाचारी (जून 1948 से 25 जनवरी 1950)
2. राष्ट्रपति ? डॉ० राजेंद्र प्रसाद
3. उप राष्ट्रपति ? डॉ० एस० राधाकृष्णन
4. प्रधानमंत्री, विदेशमंत्री ? जवाहर लाल नेहरू
5. उप प्रधानमंत्री ? सरदार वल्लभ भाई पटेल
6. स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त ? श्रीमती वी० एस० रमा देवी (26 नवम्बर 1990 से दिसम्बर 1990)
7. ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री, जिनकी भारत के बाहर (विदेश में) मृत्यु हुई ? लाल बहादुर शास्त्री (ताशकंद 1966)
8. भारत के प्रथम आई सी एस अधिकारी ? सतैन्द्र नाथ टैगोर
9. इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय ? मिहिर सेन
10. इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला ? आरती साह
11. एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम नेपाली मूल के भारतीय ? तेनजिंंग नोरगे (1953)
12. एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला ? बछेन्द्री पाल (1984)
13. भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ? इंदिरा गाँधी (1966)
14. नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय ? रविन्द्र नाथ ठाकुर (1913)
15. नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक ? डॉ० सी० वी० रमन (1930)
16. भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री ? सुचेता कृपलानी (30 प्र०)
17. भारत में प्रथम महिला राज्यपाल ? सरोजिनी नायडू
18. भारतीय सेना में प्रथम कमांडर – इन – चीफ ? जन० के० एम० करियप्पा
19. प्रथम अन्तरिक्ष यात्री ? राकेश शर्मा (1984) 5 अप्रैल
20. प्रथम महिला (भारतीय मूल) अन्तरिक्ष यात्री ? कल्पना चावला
21. भारत रत्न से सर्वप्रथम सम्मानित व्यक्ति ? डॉ० एस० राधाकृष्णन
22. मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति ? लाल बहादुर शास्त्री (1966)
23. भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला ? इंदिरा गाँधी (1971)
24. भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति ? खान अब्दुल गफ्फार खां (1987)
25. मेग्सेसे पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय ? विनोबा भावे
26. विदेशों में भारतीय झंडा फहराने वाली प्रथम महिला ? मैडम भीकाजी कामा
27. परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम भारतीय सैनिक ? मेजर सोमनाथ शर्मा
28. आधुनिक भारत में अणु विज्ञान के जनक ? होमी जे० भाभा
29. भारत की प्रथम महिला आई० पी० एस० अधिकारी ? किरन बेदी
30. भारत में स्थापित प्रथम आणविक केंद्र ? तारापुर

- |  |  |
|--|--|
| 31. भारत में स्थापित प्रथम स्वदेशी बैंक ?                          | पंजाब नेशनल बैंक   |
| 32. स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव ?                             | 1952 में   |
| 33. भारत में प्रथम कथा फिल्म ?                                     | राजा हरिश्चंद्र, 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित          |
| 34. भारत की प्रथम बोलती फिल्म ?                                    | आलम आरा, 1931 में आर्देशिर इरानी द्वारा निर्मित                    |
| 35. संस्कृत भाषा में बनी पहली फिल्म ?                              | शंकराचार्य   |
| 36. भारत में बना प्रथम अस्पताल ?                                   | सेंट जोर्ज अस्पताल, चेन्नई   |
| 37. राष्ट्र गान का प्रथम गायन ?                                    | 27 दिसंबर 1911, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में   |
| 38. राष्ट्रीय ध्वज का प्रथम आरोहरण ?                               | 7 अगस्त 1906 को सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा ग्रीन पार्क कोलकाता में |
| 39. भारत का प्रथम समाचार पत्र ?                                    | बंगाल गजट (कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, 1780 में कलकत्ता से प्रकाशित)  |
| 40. सबसे पुराना अंग्रेजी समाचार पत्र जो आज भी प्रकाशित हो रहा है ? | टाइम्स ऑफ इण्डिया, 1838 से मुम्बई से प्रकाशित                      |
| 41. प्रथम रेल यात्रा ?   | मुम्बई से थाने (34 कि० मी०), 16 अप्रैल, 1853 को                    |

### 10. भूगोल

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौनसी है ?  | चावल               |
| 2. परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला कौन सा खनिज, भारत में सर्वाधिक पाया जाता है ?  | थोरियम             |
| 3. रावी नदी का उद्गम किस प्रदेश से है ?   | हिमाचल प्रदेश      |
| 4. किस राज्य में चन्दन बहुतायत से पाया जाता है ?  | कर्नाटक            |
| 5. देश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है ?                                    | सिक्किम            |
| 6. किस स्थान पर तीन समुद्रों का संगम होता है ?  | कन्याकुमारी        |
| 7. किस भारतीय प्रदेश में सबसे कम वन स्थित हैं ?   | हरियाणा            |
| 8. जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र का नाम बताओ जहां वर्ष भर में 20 सेमी से भी कम वर्षा होती है ? | लेह                |
| 9. भारत के किस प्रदेश में रेलवे लाइन नहीं है ?  | सिक्किम            |
| 10. भारत के उत्तरी कोने से दक्षिणी कोने तक अधिकतम दूरी कितनी है ?                           | 3214 किमी०         |
| 11. भारत के पूर्वी कोने से पश्चिमी कोने तक अधिकतम दूरी कितनी है ?                           | 2933 किमी०         |
| 12. कंचनजंघा पर्वत की ऊंचाई बताओ ?  | 8597 मीटर          |
| 13. गंगा नदी किस समुद्र में अपनी यात्रा समाप्त करती है ?                                    | बंगाल की खाड़ी में |
| 14. भारत में सबसे कम वर्षा कहा होती है ?  | लेह                |

### 11. नदियाँ तथा उनके किनारे बसे प्रमुख नगर

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. सरयू         | अयोध्या                                 |
| 2. यमुना        | आगरा, दिल्ली, मथुरा                     |
| 3. गंगा         | हरिद्वार, वाराणसी, ऋषिकेश, कानपुर, पटना |
| 4. गोमती        | लखनऊ                                    |
| 5. साबरमती      | अहमदाबाद                                |
| 6. नर्मदा       | जबलपुर                                  |
| 7. हुगली        | हावड़ा (कोलकाता)                        |
| 8. शिप्रा       | उज्जैन                                  |
| 9. स्वर्ण रेखा  | जमशेदपुर (टाटानगर)                      |
| 10. गोदावरी     | नासिक, नांदेड, भद्राचलम, राजमुंदरी      |
| 11. लूनी        | अजमेर                                   |
| 12. कृष्णा      | विजयवाड़ा                               |
| 13. सतलुज       | लुधियाना, फिरोजपुर                      |
| 14. झेलम        | श्रीनगर                                 |
| 15. ब्रह्मपुत्र | गौहाटी, डिब्रूगढ़                       |
| 16. मुत्सी      | हैदराबाद                                |
| 17. ताप्ती      | सूरत                                    |
| 18. महानदी      | कटक, संबलपुर                            |
| 19. कावेरी      | त्रिचनपल्ली                             |
| 20. अलकनंदा     | बद्रीनाथ                                |
| 21. चम्बल       | कोटा, धौलपुर                            |

### 12. लेखक एवं पुस्तकें

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. विष्णु शर्मा             | पंचतंत्र   |
| 2. चाणक्य (कौटिल्य)         | अर्थ शास्त्र   |
| 3. मनु                      | मनुस्मृति  |
| 4. नारायण                   | हितोपदेश   |
| 5. बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय | दुर्गेश नंदनी, आनंद मठ, विष वृक्ष, कपल कुंडला, Ram Mohan's Wife                        |
| 6. रविन्द्र नाथ ठाकुर       | गोरा, चांडालिका, चित्रा, तृषित पाषाण, गीतांजलि, Court Dancer, Gardener, Crescent Moon. |
| 7. देवकी नंदन खत्री         | चंद्रकांता, चंद्रकांता सन्तति  |

8. स्वामी दयानंद
9. तुलसीदास
10. जयशंकर प्रसाद
11. मुंशी प्रेमचंद
12. चंदबरदाई
13. कबीरदास
14. हरिवंशराय बच्चन
15. ए० पी० जे० अब्दुल कलाम
16. नरसी मेहता (गुजराती)
17. कंबन (तमिल)
18. सुब्रह्मण्यम भारती (तमिल)
19. आद्य शंकराचार्य
20. बल गंगाधर तिलक

संस्कार विधि, सत्यार्थ प्रकाश  
रामचरितमानस, विनय पत्रिका  
कामायनी, कंकाल, तितली  
सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि  
पृथ्वीराज रासो  
बीजक  
मधुशाला, मधुयामिनी  
Ignited Minds, Wings of Fire  
सुदामा चरित्र, गोविंद गमन  
कम्बन रामायण  
पांचाली शपथम  
विवेक चूड़ामणि  
गीता रहस्य

### 13. किसने कहा या लिखा

1. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा
2. स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
3. इन्कलाब जिंदाबाद
4. सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा
5. जय जवान, जय किसान
6. उठो, जागो और बगैर, रुके लक्ष्य तक पहुँचो
7. सरफरोशी की तम्मन्ना अब हमारे दिल में है
8. कृपवन्तो विश्वमार्यम
9. खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी
10. नर सेवा नारायण सेवा
11. सवा लाख एक लडाऊं
12. मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूतकी कील बन कर रहेगा
13. यदि आपका हृदय ईमान से भरा है, तो एक शत्रु क्या सारा संसार आपके सम्मुख हथियार दाल देगा
14. दया करना सबसे बड़ा धर्म है
15. बुद्धिमान पुरुष वाही है जो प्रत्येक कार्य को अपने लिए रुचिकर बना ले

सुभाष चन्द्र बोस  
बाल गंगाधर तिलक  
इकबाल  
इकबाल  
लाल बहादुर शास्त्री  
स्वामी विवेकानंद  
रामप्रसाद बिस्मिल  
स्वामी दयानंद  
सुभद्रा कुमारी चौहान  
स्वामी विवेकानंद  
गुरु गोविंद सिंह  
लाला लाजपत राय  
रामतीर्थ  
बाल्मीकि  
स्वामी विवेकानंद

### 14. वैज्ञानिक विकास

1. शल्य चिकित्सा का जनक किस भारतीय को माना जाता है ?
2. विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली कौन सी है ?
3. पाई ( $\pi$ ) के सन्निकट मान की गणना किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम की थी ?
4. आधुनिक युग में 'पाइथागोरस प्रमेय' के नाम से प्रसिद्ध गणितज्ञ सिद्धांत का वर्णन प्राचीन काल में किस भारतीय विद्वान् ने किया था ?
5. पदार्थ के विश्लेषण की जानकारी देने वाले छठी शताब्दी के ग्रन्थ वैशेषिक सूत्र के रचियता कौन थे ?
6. प्राचीन भारत के कौन से ऋषि विमान प्रोद्योगिकी के ज्ञाता थे ?
7. प्राचीन भारतीय ग्रन्थ "चरक संहिता" किस विषय असे सम्बंधित है ?
8. प्राचीन भारत के किस विद्वान द्वारा स्थापित भाषा सिद्धांत (व्याकरण) को आधुनिक कम्प्यूटर – भाषा का आधार बनाया गया है ?
9. 12वीं शताब्दी के कौन से भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव अंक प्रणाली के पूर्ण और सुव्यवस्थित प्रयोग के बारे में विश्व की प्रथम पुस्तक की रचना की थी ?
10. कौन से भारतीय वैज्ञानिक, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पर 1969 में प्रकाशित अपने ग्रन्थ के लिए विश्व प्रसिद्ध है ?
11. चंद्रशेखर वेंकट रमण को किस कार्य के लिए भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था ?
12. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ?
13. भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) का संस्थापक किसे माना जाता है ?
14. किस प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है ?
15. अग्नि – V प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता कितनी है ?
16. विश्व की सबसे तीव्र कूज़ मिसाइल कौन सी है ?
17. भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे मन जाता है ?
18. भारत में इन्टरनेट की शुरुआत कब से हुई थी ?

सुश्रुत  
आयुर्वेद  
आर्यभट्ट  
बौधायन  
महर्षि कणादि  
ऋषि भारद्वाज  
आयुर्वेद  
पाणिनी  
भास्कराचार्य (भास्कर द्वितीय)  
गोविंद जी  
रमन प्रभाव (प्रकाश के प्रकीर्णन का सिद्धांत)  
28 फरवरी  
डॉ० विक्रम साराभाई  
डॉ० एम० एस० स्वामीनाथन  
5000 किमी०  
ब्रह्मोज  
डॉ० होमी जहाँगीर भाभा  
15 अगस्त, 1995

## 15. खेल

1. भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है ? हॉकी
2. किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है ? ध्यानचंद
3. आगा खां कप किस खेल से सम्बंधित है ? हॉकी
4. ओलम्पिक एथलेटिक्स फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला ? पी० टी० ऊषा
5. किस भारतीय पुरुष धावक ने अब तक की ओलम्पिक प्रतिस्पर्धाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है ? मिल्खा सिंह 400 मी० दौड़, 1960
6. लम्बी कूद में ओलम्पिक फाइनल में पहुंचने वाली महिला का नाम बताओ ? अंजू बाबी जोर्ज, एथेंस 2004
7. प्रथम शतरंज ब्रैंड मास्टर ? विश्वनाथन आनंद
8. शतरंज में जूनियर विश्व चैंपियन विजेता पहली भारतीय महिला ? कोनेरू हम्पी
9. सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज जूनियर खिताब जीतने वाले भारतीय का नाम ? पी० हरि कृष्णा, कोच्ची, नवम्बर 2004, 18 वर्ष 204 दिन विश्वनाथन आनंद ने 18 वर्ष 234 दिन की आयु में जीता था
10. भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है ? राजीव गाँधी खेल पुरस्कार
11. द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है ? श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को
12. किन बैडमिंटन खिलाड़ियों ने राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया ? पुलेला गोपीचंद(2000-1), साईना नेहवाल (2009-10)
13. भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन हैं ? सचिन तेंदुलकर (2013)
14. बिलियर्ड्स में विश्व चैंपियन की उपाधि पाने वाले प्रथम भारतीय ? विल्सन जोन्स (कोलकाता -1958)
15. कौन सा क्रिकेट मैदान चंडीगढ़ के पास है ? मोहाली
16. भारत का सबसे पुराना फूटबाल क्लब कौन सा है ? मोहन बागान, 1989
17. राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ? मेजर ध्यानचंद
18. All England Badminton Championship जीतने वाले प्रथम भारतीय ? प्रकाश पादुकोण
19. सबसे कम उम्र में सबसे तेज, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय महिला ? साईना नेहवाल, 15 वर्ष, एशियन सेटेलाइट चैंपियनशिप, नई दिल्ली 2005
20. खो – खो का क्या अर्थ है तथा यह किस भाषा का शब्द है ? जाओ और पकड़ो, मराठी
21. भारत में सर्व प्रथम स्थापित गोल्फ क्लब का नाम ? रॉयल गोल्फ क्लब, कोलकाता 1829
22. भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी कितनी बार की है ? 2 बार (1951 व 1982)
23. अंतर्राष्ट्रीय टेनिस सर्किट रैंकिंग में 30 से कम क्रम प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला ? सानिया मिर्जा, 6 अगस्त 2007
24. किस प्रथम भारतीय युगल ने विम्बलडन डबल्स खिताब जीता ? लिअंडर पेस और महेश भूपति, 1999 में

## 16. उपनाम

1. लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क सरदार बल्लभ भाई पटेल
2. महामना मदन मोहन मालवीय
3. श्री गुरु जी माधव सदाशिव राव गोलवलकर
4. लोकनायक जयप्रकाश नारायण
5. शेर – ए – पंजाब महाराजा रणजीत सिंह
6. दादा मुनि अशोक कुमार
7. हिन्द की चादर गुरु तेग बहादुर
8. दानवीर राजा कर्ण
9. हरियाणा हरिकेन कपिल देव
10. शहीदे – आजम भगत सिंह

## 17. संस्थापक

1. आर्य समाज स्वामी दयानन्द (10.04.1875)
2. ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय (1828)
3. राम कृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद (1896)
4. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय पं० मदन मोहन मालवीय
5. अलीगढ़ विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खां
6. शांति निकेतन (विश्व भारती) रविन्द्र नाथ ठाकुर
7. साबरमती आश्रम महात्मा गाँधी
8. भारतीय जनसंघ डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी (1951)
9. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉ० केशव बलिराम हेडगेवार
10. अखिल भारतीय कांग्रेस ए० ओ० ह्युम (1885)
11. मदन पार्टी लाला हरदयाल (1913)
12. अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर
13. भारतीय वायुसेना के संस्थापक तथा प्रथम पायलट जे० आर० डी० टाटा
14. गुडिया संग्रहालय, दिल्ली कार्टूनिस्ट शंकर पिल्लै
15. भूदान आन्दोलन के प्रणेता विनोबा भावे
16. विपको आन्दोलन के प्रणेता सुन्दर लाल बहुगुणा



17. नर्मदा बचाओ आन्दोलन के प्रणेता
18. थिओसिफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया
19. होमरूल लीग
20. कोर्णाक मंदिर
21. हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी
22. आजाद हिन्द फ़ौज
23. फॉरवर्ड ब्लाक
24. रमन रिसर्व इंस्टिट्यूट, बंगलौर
25. हिन्दू महासभा
26. स्वराज पार्टी
27. बोस रिसर्व इंस्टिट्यूट, कोलकाता
28. विन्मय मिशन
29. स्वदेशी सभा
30. रॉ (रिसर्व एंड एनेलिसिस विंग)
31. सत्य शोधक समाज
32. कुम्भल गढ़
33. किसान मजदूर प्रजा पार्टी
34. गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार
35. प्रयाग महिला विद्यापीठ

- मेधा पाटकर  
मैडम ब्लेवेस्की तथा कर्नल अल्काट  
एनीबेसेंट व बल गंगाधर तिलक (1915)  
नरसिंह देव  
चन्द्र शेखर आजाद व भगत सिंह  
रास बिहारी बोस व कैप्टन मोहन सिंह (1942)  
सुभाष चन्द्र बोस  
डॉ० सी० वी० रमन  
मदन मोहन मालवीय  
सी० आर० दास तथा मोतीलाल नेहरू (1923)  
जगदीश चन्द्र बोस  
स्वामी विन्मयानन्द  
भूला भाई देसाई  
आर० एन० का  
महात्मा ज्योतिराव गोविन्दाव फूले  
राणा कुम्भा  
आचार्य जे० बी० कृपलानी  
स्वामी श्रद्धानंद  
महादेवी वर्मा

### 18. सम्मान एवं पुरस्कार

1. देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है ?
2. भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार ?
3. तीसरे नम्बर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ?
4. चौथे नम्बर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ?
5. शत्रु के साथ युद्ध करते हुए वीरता के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ?
6. शत्रु के साथ युद्ध करते हुए वीरता के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार ?
7. युद्ध के समय वीरता के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार ?
8. शांति काल में वीरता प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ?
9. शांति काल में वीरता प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार ?
10. शांति काल में वीरता प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार ?
11. सशस्त्र सेना के लोगो को अद्वितीय सेवाओं के उपलक्ष्य में दिए जाने वाला स्वर्ण पदक ?
12. सशस्त्र सेना के लोगो को अद्वितीय सेवाओं के उपलक्ष्य में दिए जाने वाला पदक ?
13. सशस्त्र सेना के लोगो को अद्वितीय सेवाओं के उपलक्ष्य में दिए जाने वाला कांस्य पदक ?
14. साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ?
15. भारत रत्न आदि अलंकार किस वर्ष आरम्भ किये गए ?
16. भारत प्राप्त करने वाले प्रथम उप राष्ट्रपति ?
17. किस फिल्म निदेशक व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है ?
18. फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए उच्चतम पुरस्कार ?
19. दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किया गया ?
20. सर्वप्रथम राजीव गाँधी खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ?
21. भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक ?
22. प्रथम चिकित्सक – राजनीतिज्ञ जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया ?
23. राजर्षि नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया ?
24. जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के संस्थापक उप – कुलपति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया ?
25. धर्मशास्त्र का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया ?
26. किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया ?
27. नोबेल पुरस्कार, मेग्सेसे पुरस्कार एवं भारत रत्न से सम्मानित महिला का नाम बताओ ?
28. प्रथम उप – प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया ?
29. प्रमुख अर्थशास्त्री जिसे नोबेल पुरस्कार तथा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया ?
30. असम के प्रसिद्ध नेता जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया ?
31. दादा साहब पुरस्कार प्राप्त किस गायिका को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया ?
32. भारत के किस सितार वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया ?
33. शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध महिला गायिका का नाम, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया ?
34. दिल्ली की मेयर रही किस महिला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया ?

- भारत रत्न  
पद्म विभूषण  
पद्म भूषण  
पद्म श्री  
परमवीर चक्र  
महावीर चक्र  
वीर चक्र  
अशोक चक्र  
कीर्ति चक्र  
शौर्य चक्र  
परम विशिष्ट सेवा मैडल  
अति विशिष्ट सेवा मैडल  
विशिष्ट सेवा मैडल  
ज्ञानपीठ पुरस्कार  
1954  
डॉ० राधा कृष्णन, 1954  
सत्यजीत रे  
दादा साहब फाल्के पुरस्कार  
1969  
विश्वनाथन आनंद  
डॉ० सी० वी० रमन  
डॉ० विधान चन्द्र राय  
पुरुषोत्तम दास टंडन  
डॉ० जाकिर हुसैन  
डॉ० पांडुरंग काणे  
बिस्मिल्लाह खां  
मदर टरेसा  
सरदार वल्लभ भाई पटेल  
अमर्त्य सेन  
गोपीनाथ बोरडोलई  
लता मंगेशकर  
पं० रविशंकर  
एस०एस० सुब्बालक्ष्मी  
अरुणा आसफ अली

## 19. भारतीय सुरक्षा बल

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन हैं ?   | भारत के राष्ट्रपति                  |
| 2. भारतीय थल सेना का सर्वोच्च प्राप्य पद कौन सा है ?   | फील्ड मार्शल                        |
| 3. भारतीय थल सेना के कितने कमांडरों को फील्ड मार्शल का पद मिला ?                                     | 2, के०एम० करियप्पा एवं सैम मानेक शॉ |
| 4. भारतीय वायु सेना में मार्शल का पद ग्रहण करने वाले एकमात्र प्रमुख का नाम बताएं ?                   | अर्जुन सिंह                         |
| 5. भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है ?   | देहरादून                            |
| 6. भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ?  | गुडगाँव                             |
| 7. भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी का नाम बताएं ?                                | INS अरिहंत                          |
| 8. भारत के प्रथम स्वदेशी हलके लड़ाकू विमान का नाम बताओ ?   | तेजस                                |
| 9. किस युद्ध के दौरान मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत के प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया ?          | 1947 भारत पाक युद्ध, कश्मीर         |
| 10. दौलत बेग ओल्डी किस क्षेत्र में स्थित है ?  | लघाख                                |
| 11. भारतीय वयु सेना दिवस कब मनाया जाता है ?  | 8 अक्टूबर                           |
| 12. भारतीय जल सेना दिवस कब मनाया जाता है ?   | 4 दिसम्बर                           |
| 13. भारत द्वारा परमाणु विस्फोट परिक्षण किस स्थान पर किये गए ?  | पोखरण, राजस्थान                     |
| 14. भारत के अर्धसैनिक बल को कौन नियंत्रित करता है ?  | गृह मंत्रालय                        |
| 15. भारत का कौन सा युद्ध पोत सेवानिवृत्ति के बाद मुम्बई में स्थाई समरक के रूप में स्थापित किया गया ? | INS विक्रान्त                       |
| 16. पंजाब के कौन से युद्ध क्षेत्र को पाकिस्तानी पैटन टैंकों के कब्रिस्तान की संज्ञा दी गयी है ?      | खेमकरण सेक्टर                       |
| 17. भारत में NCC किस वर्ष शुरू की गयी ?  | 1948                                |
| 18. भारत की कूज मिसाइल का नाम बताएं ?  | ब्राह्मोस एवं निर्भय                |
| 19. भारत के कौन से टैंक रोधी मिसाइल को “दागों और भूल जाओ” की संज्ञा दी गयी है ?                      | नाग                                 |
| 20. भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है ?   | खडगवासला, पुणे                      |

## 20. महापुरुषों के बचपन के नाम

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 1. विवेकानंद                 | नरेन्द्र    |
| 2. गोस्वामी तुलसीदास         | रामबोला     |
| 3. बाँदा बैरागी              | लक्ष्मण देव |
| 4. दयानंद सरस्वती            | मूलशंकर     |
| 5. माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर | मधु         |
| 6. रानी लक्ष्मी बाई          | छबीली, मनु  |
| 7. गौतम बुद्ध                | सिद्धार्थ   |
| 8. गुरु अंगद देव             | लहना        |
| 9. महात्मा गाँधी             | मोनी        |